

### STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA) Tel: 0129-4275900 - 4275930, Fax: 0129-4275999 E-mail: info@stl-global.com Website: www.stl-global.com CIN: L51909DL1997PLC088667

Date: 12-02-2024

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001, MH

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2023

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of the advertisement published on the above-mentioned subject matter, in the following newspaper:

1. Mint – English in all Edition on 10<sup>th</sup> February, 2024

2. Veer Arjun - Hindi in Delhi Edition on 10th February, 2024

Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,

For STL GLOBAL LIMITED

Manil Kr. Nagar Company Secretary

Encl: As above



# Range of options to cut debt load, says Biocon

Co had borrowed to buy US firm for \$3.3 bn; Net debt now at \$1.1 billion

Naman Suri & Ranjani Raghavan

NEW DELHI/MUMBAI

iopharmaceutical firm Biocon Ltd will "remain focused" on reducing its debt taken on to buy the \$3.3 billion generics portfolio of American drugmaker Viatris, a top executive said.

On 8 February, the company said it had made a prepayment of \$200 million over the preceding quarter, which brought its group-level debt down to \$1.1 billion.

Biocon's net debt rose to \$1.9 billion in December 2022, as it sought funds to complete the mega-transaction for Viatris.

'The debt levels have been reduced to \$1.1 billion at the group level and while the debt levels are comfortable now, we'd like to perhaps get to a level of three times the multiple of Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)," said Peter Bains, group CEO for Biocon Ltd in an interview with Mint

Biocon's Ebitda for FY23 stood at ₹2,888 crore—three times that is ₹8,664 crore (\$1.04 billion).

The company has "a range of options" to achieve debt reduction, he said, though it was "unlikely" it would sell equity stake in any of its units.

"We have the potential to generate cash from our business operations, and we've also

explored licensing opportunities in the past, which could contribute additional income. Moreover, we could consider financial restructuring regarding our existing debt. There are various options available to address our leverage, and we're open to exploring them to

bring about the desired outcomes," he said. The \$200 million prepayment was made through receivables and out-licensing

The company may also not require cash for capital expenditure as it is coming to the

end of its investment cycle. Bioconsaid in December 2023 it was in



Biocon's net debt had risen to \$1.9 billion in December 2022, as it sought funds to complete the purchase of American drugmaker Viatris's generics portfolio.

the middle of a \$500-million capex plan for the generics business, which is currently witnessing a slowdown.

"We are not going forward with that, we are coming towards the end of the investment cycle for the generic business, where we have strengthened capacities and capabilities in both fermentation and APIs," Bains added.

### **CLEARING ITS DUES**

**BIOCON** "unlikely" to sell stake in any of its units to reduce debt, says group CEO Peter Bains

**THE** biopharma firm said it made a prepayment of \$200 million over the preceding quarter

**BIOCON** reported consolidated net profit of ₹660 crore ended 31 December

During the third quarter of the current financial year, the company said revenue from the generics business was down 7% to ₹703 crore.

However, it sees significant growth opportunities in this segment, driven by the investments that it has already made. particularly in the development and manufacture of peptides, commonly used in dietary supplements.

"Central to the capex programme in generics is to build the capacities and capabilities of development and manufacturing of peptides, which we still have to complete. We're progressing well in late-stage preparations to bring generic peptides to market, pending regulatory approvals.

> This focus on generic peptides, such as GLP I, is a key driver for growth in our generics segment," he said.

Additionally, the company sees growth potential in its biologics business, revenue from which was 65% during Q3FY24 at ₹2,483 crore.

Biocon on Thursday reported consolidated net profit of ₹660 crore during the third quarter of the current fiscal year, up from the ₹42 crore loss it incurred in the corresponding quarter a year ago. Consolidated revenue came in at ₹3,954 crore, up 34% v-o-v

naman.suri@livemint.com

# L&T, Matrix join energy subsidy scheme

nehal.chaliawala@livemint.com MUMBAI

NEWS

&T Electrolysers Ltd and Matrix Gas and Renewables Ltd have been awarded subsidies under New Delhi's flagship green hydrogen promotion scheme following a last-minute withdrawal by Jindal India Ltd, a BC Jindal Group company, said one person familiar with the development.

The decision was taken on Thursday after Jindal India missed the 3 February deadline to furnish bank guarantees required to formally sign up for the scheme, this person said, asking not to be named.



The incentives are part of the ₹17,490-crore Sight scheme. AF

The incentives are part of the ₹17,490-crore Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (Sight) scheme, which grants subsidies to companies for setting up electrolyser manufacturing plants in India.

Jindal India backed out of the scheme after disagreements with its overseas technology partner, according to the person mentioned above. The company did not reply to emailed queries.

L&T Electrolysers has been awarded maximum incentives of ₹444 crore to set up 300 megawatts of annual electrolyser manufacturing capacity. The company had earlier won a lower allocation of 63 MW against its application of 300 MW. L&T received the higher allocation following the withdrawal of Jindal India.


Matrix has been awarded incentives of ₹93 crore to set

up 63 MW of annual electrolyser manufacturing capacity.

MNRE and Seci did not immediately reply to queries. L&T and Matrix could not immediately be reached for a comment.

"The recent measures by the Indian government to reallocate resources towards green hydrogen electrolyzer manufacturing suggest a growing commitment to developing domestic production capacity in this emerging clean energy sector," said Saurabh Agarwal, Partner, EY.

"This initiative, if successful, could contribute significantly to India's energy independence and self-sufficiency goals," he said.



The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of unaddited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.maxindia.com).

**ANTARA** 

By Order of the Board

Rajit Mehta DIN: 01604819

Canara (X) HSB

Canara HSBC Life Insurance Company Limited 139P, Sector - 44, Gurugram-122003, Haryana (India) Tel: 0124-4535500 Email: procurement@canarahsbclife.in **NOTICE INVITING BIDS/OFFERS** 

Open Tender is invited against **RFP for Security Services Management** dated 09-February-2024 Above tender has been uploaded on <a href="https://www.canarahsbclife.com/tenders-notices.html">https://www.canarahsbclife.com/tenders-notices.html</a> vebsite of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. All prospective bidders are advised visit the aforesaid website for downloading the RFF

**STL GLOBAL LIMITED** CIN: L51909DL1997PLC088667 Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2023** 

Quarter

(31.12.2023

Unaudited

2,563.73

(13.16)

(13.16)

(14.44)

(14.44)

2,722.18

(0.05)

(0.05)

. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for

the quarter and nine months ended on December 31, 2023 filed with the Stock

Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The ful

formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended or

December 31, 2023 are available on the company's website at www.stl-global.com

and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE a

The Company business falls within a single business segment in terms of the India

Accounting Standard- Operating segment, hence no additional disclosures have

There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nin

**Particulars** 

Total Expenses

Total Income from operations (net)

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional Items)

Net Profit / (Loss) for the period

tax (after Exceptional items)

**Equity Share Capital** 

Sheet of previous year

Diluted

Note:

(Face Value: Rs. 10/- each)

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Balance

Earnings Per Share (for continuing

www.nseindia.com respectively.

months ended 31st December, 2023.

been furnished.

and discontinued operations)

before Tax (after Exceptional Items)

Net Profit / (Loss) for the period after

Total Comprehensive Income for the

period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)

Months

31.12.2023

Unaudited

6,338,54

6,519.18

(175.66)

(175.66)

(182.39)

(182.39)

(0.68)

(0.68)

For and on behalf of the Board of Directors of

Sh. Sanjiv Kumar Agarwa

Whole Time Director



# **BUILDING** Dreams of Millions Infrastructure for Viksit Bharat

(Funding, Consultancy & Capacity Building)

Date: February 8, 2024



Extract of Statement of Unaudited Financial	Results	(Standal	lone & C	consolid	lated) fo	r the Qu	arter/Nir	ne Mont	hs Ende	d 31 <sup>st</sup> De	ecember	; 2023
			STAND	ALONE					CONSOL			₹ in Crore
PARTICULARS	Quarter ended			Nine months ended Year ender		Quarter ended			Nine months ended		Year ended	
	<b>31.12.23</b> (Unaudited)	<b>30.09.23</b> (Unaudited)	<b>31.12.22</b> (Unaudited)		<b>31.12.22</b> (Unaudited)	<b>31.03.23</b> (Audited)	<b>31.12.23</b> (Unaudited)	<b>30.09.23</b> (Unaudited)		<b>31.12.23</b> (Unaudited)		31.03.23 (Audited)
Total Income from Operations (Net)	2,012.66	1,864.80	1,709.58	5,719.07	5,197.08	7,049.46	2,012.66	1,864.80	1,709.58	5,719.07	5,197.08	7,049.46
Net Profit for the Period (before tax & exceptional items)	696.09	606.42	340.32	1,900.32	1, 425.10	2,289.41	696.13	606.38	340.27	1,900.27	1,424.96	2,289.22
Net Profit for the Period before tax (after exceptional items)	696.09	606.42	340.32	1,900.32	1, 425.10	2,289.41	696.13	606.38	340.27	1,900.27	1,424.96	2,289.22
Net Profit for the Period after tax (after exceptional items)	519.19	451.69	254.32	1,416.58	1,062.43	1,701.62	519.23	451.65	254.27	1,416.53	1,062.29	1,701.43
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	523.15	447.03	251.98	1,422.89	1,068.16	1,726.36	523.19	446.99	251.93	1,422.84	1,068.02	1,726.17
Paid up Equity Share Capital (FV - ₹10/- each)	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,443.35	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,441.66
Securities Premium Account	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.26	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1.26
Net Worth	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,445.25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,443.56
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt*	_	-	-	-	-	62,974.90	-	-	-	-	-	62,974.90
Debt Equity Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3.84	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3.84
Earning Per Share (FV - ₹10/- each) (Not annualised)												
i) Basic (₹ per share)	2.59	2.26	1.27	7.08	5.31	8.50	2.59	2.26	1.27	7.08	5.31	8.50
ii) Diluted (₹ per share)	2.59	2.26	1.27	7.08	5.31	8.50	2.59	2.26	1.27	7.08	5.31	8.50
Debenture Redemption Reserve**(as at year end)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,896.95	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,896.95
* Outstanding Debt excluding Ind As Adjustments ** Debenture Redemption F	Pacarva ac on	31st March 2	023 rechective	ωlv								

Corresponding

Quarter ended

in the previous ear (31.12.2022)

Unaudited

2.562.56

2,641.65

(79.09)

(79.09)

(62.20)

(62.20)

2,722.18

(0.23)

(0.23)

Sd/

The above financial results of the company have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their meeting held on 9th February, 2024. These financial results have also been limited reviewed by the

The other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulation, pertinent disclosures have been made to the

Statutory Auditors of the Company 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly/Nine Months period Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full formal of the financial results are available on the websites of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates). National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/ corporates) and the same is also available on the company's website

websites of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/corporates) and the same is also available on the company's website (URL: www.hudco.org.in).

There is no change in the accounting policy during the quarter/Nine months period, hence there is no impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies. For and on behalf of the Board of Directors Place: Mumbai

(Shekhar Singh)

Chief Executive Office

Sd/-**Sanjay Kulshrestha** Chairman & Managing Director



**Urban Development** Corporation Ltd.

(A Govt. of India Undertaking) CIN: L74899DL1970G0I005276 GSTIN: 07AAACH0632A1ZF

Follow us on 👍 风 in 🗔

REGISTERED OFFICE: Hudco Bhawan, Core 7A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi- 110003 • www.hudco.org.in

Ref. No.: Asset/2024/722

Dated: 8/2/2024


**E-TENDER NOTICE** RFP for Selection of Contractor for Cafeteria Services in GNIDA Office Complex (Second call)

Detailed RFP document is available on the E-Procurement Portal of Government of UP (https://etender.up.nic.in) from 12.02.2024. The bid start date will be 12.02.2024.

Interested Applicants are required to apply online on the E-procurement website on or before 26.02.2024, 05:00 pm (IST). The bid opening will be on 27.02.2024, 11:00 am (IST). In case of any queries, the Bidders are invited to contact Manager, Asset Department, GNIDA

Email-ppmishra@gnida.in; Phone: 98103 80863 **OSD, Asset Department, GNIDA** 

Follow Us On @① (Official GNIDA



Date: 09th February, 2024

## DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD. (A Joint Venture of Goyt, of India and Goyt, of NCT of Delhi)

**PRESS NOTIFICATION** Government of India Ministry of Civil Aviation

**Commission of Railway Safety** 

Shri Janak Kumar Garg, Commissioner of Metro Railway Safety, New Delhi, under the Ministry of Civil Aviation, Government of India will hold a statutory inquiry on 10.02.2024 commencing from 11:00 am at the Conference Room, 7th Floor, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi 110001 in connection with the accident that took place at Gokulpuri Metro Station of Line - 7 on 08.02.2024 at 11:04 am due to falling of a portion of platform boundary wall at street level.

Any public having knowledge relating to the accident or matters connected therewith and desires to give evidence may do so at the above place on the date of inquiry or write to the Commissioner of Metro Railway Safety at cmrs-moca@gov.in

Commissioner of Metro Railway Safety, New Delhi.

Pimpri Chinchwad Smart City Limited, Chinchwad-411019 Date: 09-02-2024 This PDF was uploade To Telegram channel\_https://t.me/Magzines\_latest\_Newspaper(send Me Message telegram ya WhatsApp This number 8890050582)

PGSCL/06/WS/69/2024

मुलाकात की और लंबित

योजनाओं पर चर्चा की और राज्य

को विशेष दर्जा देने सहित विभिन्न

मांग रखी। विशेष श्रेणी का दर्जा

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के

प्रावधानों में से एक है, जिसके

जरिये जुन 2014 में अलग

तेलंगाना राज्य का गठन किया गया

था। जगन का राष्ट्रीय राजधानी का

दौरा तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू

द्वारा आंध्र प्रदेश में लोकसभा और

विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा

से संभावित गठबंधन पर बातचीत

के लिए शाह और भाजपा अध्यक्ष

जेपी नड्डा से मुलाकात के कुछ

आबादी वाले इलाकों की स्रक्षा

व्यवस्था पर विशेष रूप से चर्चा हुई

है। इसे भूला नहीं जा सकता कि

टारगेट किलिंग के षड्यंत्र को जारी

हमले किए थे। इन हमलों में दो

PROCLAMATION REQUIRING

ATTENDANCE OF DEFENDANT

(Order 5, Rule 20 of the Code of

IN THE COURT OF SH

SANJEEV KUMAR MALHOTRA,

DISTRICT JUDGE

(COMMERCIAL COURT) AT

NORTH-EAST DISTT. KARKARDOOMA COURT,

**DELHI. ROOM NO 201 NEW** 

BUILDING KKD

Case Reg. No.: CS (COMM) :- 108/2023

Next Date of Hearing 23.02.2024

ICICI BANK LTD.

Against MOHAMMAD SHARIQ

MOHAMMAD SHARIQ

S/O. SH. MOHD RAFIQ

NEW DELHI- 110 094

R/O. H. NO.- 601, D-BLOCK SHRI RAM COLONY, RAJIV

NAGAR, KHAJOORI, DAYALPUR

WHEREAS you are intentionally

evading service of summons it is

hereby notified that if you shall no

defend the case on the 23/02/2024

it will be heard and determined

Given under my hand and the seal

District Judge

(Comm. Court),

KKD Courts, Delh

of the Court, this 29/01/2024.

श्रमिकों की मौत हुई थी।

दिनों बाद हो रहा है।

## जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से की मुलाकात रेड्डी आखिरी कोशिश के तहत

नई दिल्ली, (विप्र)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यहां मुलाकात की और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर जगन और मोदी की मुलाकात की जानकारी दी। रेड्डी 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की मांग के वादे के साथ सत्ता में आए थे और इस मुद्दे पर पहले भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कई बार म्लाकात कर चुके हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव

## भारत में कोविड-19 को 121 नए मामले सामने आए

नई दिल्ली. (विप्र)। भारत में

बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 121 नये मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 856 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकडों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। पिछले साल पांच दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड की वजह से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पांच दिसंबर के बाद एक दिन में सर्वाधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे। एक अधिकारिक सूत्र ने कहा, वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जेएन-। स्वरूप की वजह से न तो नये मामलों में तेज वृद्धि हुई है और न ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई है। कुल उपचाराधीन मरीजों में से 92 प्रतिशत मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति भयावह हो गई थी और उस दौरान सात मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और कोविड-19 संक्रमण से 3,915 लोगों की मौत हुई थी। देशभर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग चार वर्ष में कोविड-19 से साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा इनसे 5.30 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4.40 करोड से अधिक है और इस

IN THE COURT OF SH. RAKESH PANDIT, DISTRICT JUDGE (COMM COURT)-04 DISTRICT, DWARKA COURTS, NEW DEL HI **PUBLICATION NOTICE:** 

संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय

दर 98.81 प्रतिशत है।

(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure) SUIT NO.: CS (COMM)/320/2023 M/S ICICI BANK LTD

...PLAINTIFF V/S BIRAJ SAIKIA ...DEFENDANT

SH. BIRAJ SAIKIA (BORROWER) S/O SH. PREMODHAR SAIKIA,1043, FIRST FLOOR, DDA

AKSHARDHAM APARTMENTS, SECTOR-19, DWARKA, DELHI-110 075 CONTACT NO.: 9891554279 E-MAIL: biraj.saikia@metlife.com

ALSO AT:-C/O METLIFE GLOBAL OPERATIONS SUPPORT
CENTER PVT LTD, BUILDING
NO. 1, CANDOR TECH SPACE
IT/ITES, SEZ PLOT NO. 20121,

SECTOR-135, NOIDA (UP)-201 304 Whereas Plaintiff has instituted that above Commercial Suit for Recovery againt the defendant. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on 11.03.2024 at 10:00

AM to answer the same, failing which the Suit will be disposed of Given under my hand and seal of the Court, this 23rd day of January, 2024 to be published in English Newspaper "The Statesman".

NOTE:- Defendant is informed to file Written Statement alongwith Statement of Truth and Affidavit of Admission and Denial of Documents within a period of 30 days from the date of receipt of nons with advance copy to

District Judge-04 (Commercial Court) South-West District

Court No. 509, 5th Floo **District Courts Dwarka** New Delh आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते हुए। (छाया : एएनआई)

में कांग्रेस द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने और तेलुग देशम पार्टी (तेदेपा)

सुरेश एस डुग्गर

जम्म। जिस राजधनी शहर

श्रीनगर को कई बार आतंकवाद

मुक्त करार दिए जाने के बावजुद

आतंकियों द्वारा परसों दो पंजाबियों

की हत्या के बाद हालांकि प्रशासन

और पलिस ने प्रवासी नागरिकों व

उनकी बस्तियों की सुरक्षा को

बढ़ाया है पर प्रशासन व सुरक्षाबल

श्रीनगर पहुंचने वाले पर्यटकों में

फिलहाल विश्वास कायम नहीं कर

पाए हैं। यह इसी से स्पष्ट होता था

कि श्रीनगर के डाउन टाउन और

डल झील पर दो दिनों से आने वाले

पर्यटकों की संख्या नगण्य ही थी।

दावा किया है कि कश्मीर में सभी

अल्पसंख्यकों की बस्तियों और

प्रवासी श्रमिकों की आबादी वाले

इलाकों में प्रशासन ने सुरक्षा

व्यवस्था को और कडा कर दिया

है। श्रीनगर में आने-जाने के सभी

रास्तों पर विशेष नाके लगाए गए

हैं। पर इतना जरूर था कि श्रीनगर

संपर्क कर सकती है:

7

के संबंध में विद्यत कार्य।

बयाना राशिः रु. 2,83,400.00

कैनरा बैंक

नंबर 2 गांधी नगर ईस्ट, दिल्ली—110031

पर्व. दिल्ली-110031

संयुक्त निदेशक का कार्यालय

दरमाष नंबर: 011-26881826

अधिकारियों ने इसके प्रति

के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से

दो पंजाबियों की हत्या के बाद प्रवासियों की सुरक्षा बढ़ाई

में बुधवार की शाम आतंकियों की

ओर से दो गैर-कश्मीरी लोगों पर

फायरिंग की घटना के बाद

पर्यटनस्थल दो दिनों से सूने हैं। डल

झील पर शिकारा नाव संचालक

पर्यटकों का इंतजार करते रहे,

लेकिन बेहद कम संख्या में पर्यटक

वहां पहंचे। इस कारण नाव

संचालक फुर्सत में आराम करते

हुए नजर आए। इसके अलावा

श्रीनगर के लाल चौक पर भी अन्य

दिनों की तुलना में पर्यटक काफी

कम संख्या में पहुंचे। पार्कों में

सन्नाटा पसरा रहा है। बताया जाता

महानिरीक्षक बीके विरदी और

मंडलायक्त कश्मीर विजय कमार

बिधुड़ी ने कश्मीर के सभी जिला

उपायुक्तों और जिला एसएसपी व

अन्य संबधित अधिकारियों के

साथ बैठक में कश्मीर के सुरक्षा

परिदृश्य का जायजा लिया। बैठक

में वादी में सभी अल्पसंख्यक

बस्तियों और बाहरी श्रमिकों की

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय

रूचि की अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, रेल संग्रहालयों / कियोस्कों को रेलवे स्वीकृत सोविनियर

वस्तुओं की आपूर्ति के लिए स्वयं को 'राष्ट्रीय रेल संग्रहालय पंजीकृत विक्रेताओं' के

रूप में पंजीकृत करने के लिए मर्चेडाइज फैब्रिकेटर्स/कंपनियों/एमएसएमई/

स्वयं सहायता समूहों / उद्यमियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता

है। ईओआई सूचना के विस्तृत नियम एवं शर्ते राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की वेबसाइट

www.nrmindia.org पर देखी जा सकती हैं। फर्मों से सीलबंद लिफाफे मे

किसी भी प्रश्न और स्पष्टीकरण के लिए, इच्छ्क कंपनियां निम्नलिखित पते पर

ई-मेलः nrmoffice.india@gmail.com, souvenir.nrm.india@gmail.com

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलं

निविदा आमंत्रण सूचना

डीएलआई, एएनवीटी, एसएसबी, डीकेजेड और टीकेडी जोन में पम्पिंग स्थापना के स्वचालन

**वेबसाइट व नोटिस बोर्ड**ः <u>www.ireps.gov.in</u> / वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, नई दिल्ली

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली

ातुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–11000

TA 20/2024

(1) धीरज सिंघल और अन्य 3107 5वीं मंजिल, गली नंबर 4 रघुबरपुरा नंबर 2 गांधी नग

(2) पंकज सिंघल प्रॉप ऑफ मैसर्स एमआर गारमेंट्स, ग्राउंड 1 फ्लोर 5437 गली नंबर 5 रघुवरपु

बिक उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध रु. 43.06.876.42 / – (रुपए तिरालिस लाख छः हर जवार उपरांचा नाम जायपन न जायफ विकास १, ४३,००,४७,४८७ / एपपु स्मालस साथ छ र छा आठ सी फिहत्तर तथा पैसे बयालिस मात्रों की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जाते न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जा

संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **19–04–2024** व पूर्वा, 10.30 बजे **माननीय पी.ओ**. के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अतिरिक्त विवरण के लि

ान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनव था निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

तथा नणय आपका अनुपास्थात म किया जाएगा।
वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग वे
माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु:— सभी अधिवक्ता / विवादी "Cisco Webex" ऐप्लीकेशन/
सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; रिजस्ट्रार, वसूली अधिकारी—।/ तथा वसूली अधिकारी—।। द्वारा मामलों के
सुनवाई की अगली तिथि हेतु "Meeting ID" तथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी वे
आधिकारिक पोर्टल नामतः "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। किसी
कार्याध्विय की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 011—23748473 पर सम्पर्व
कर्षाध्विय की

अमित के. डार, (विद्वान रजिस्ट्रार, डीआरटी—।) फोन नंबर 011—23748473 ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.i

गुमशुदा की तलाश

रंगः गोरा, कदः 5'1'' फीट, चेहराः गोल, शरीरः मोटा, पहनावाः हल्के

किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई भी

जानकारी/सूचना मिले तो इसकी सूचना निम्नलिखित को ई-मेलः

cic@cbi.gov.nic.in अथवा वेबसाइटः http://cbi.nic.in फोन नम्बर

या डीआरटी वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011—23748473)।

ारे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 30 जनवरी 2024 को दिया गया। 🎩

प्रतिवादी आगे पूछताछ के लिए नीचे लिखे नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक

महिला (चित्र में दर्शाया गया), जिसका नामः बीना

पत्नी विवेक कुमार निवासी 2499 नलवा स्ट्रीट

चुन्ना मंडी, पहाड़गंज, दिल्ली. उम्र 39 वर्ष जोकि

02.02.2024, लगभग दोपहर 01.25 बजे को अपने

घर से गुम है। इस बाबत DD NO.87-A दिनांक

03.02.2024 से थाना पहाड़गंज, दिल्ली में दर्ज

लाल रंग का सूट और भूरे रंग का स्वेटर। पहने हुए है।

है। महिला का शारीरिक ब्योरा इस प्रकार है:

11-24368638 or 24368641 पर दें ।

DP/1554/CD/2024

विरुद्ध

श्री धीरज सिंघल एवं अन्य

इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रा

थाना पहाड़गंज, दिल्ली

फोनः 8750042525, 8750012525, 8750870427

**कार्यालय का पता**ः वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, स्टेट एंट्री रोड़, नई दिल्ली

ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11.03.2024 को 17:30 बजे तक है।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

कार्य का नाम और इसकी स्थितिः 30-Elect-47-T-2023-24-E3

निविदा निवेदन की दिनांक व समयः 13.03.2024, 12:00 बजे

निविदा खोलने की दिनांक व समयः 13.03.2024, 12:00 बजे

निविदा की अनुमानित लागतः रु. 266.71 लाख

रेल मंत्रालय, भारत सर

कि कश्मीर रेंज के पुलिस

### दुर्गंध के कारण मुंबई जाने वाली उडान दिल्ली लौटी : इंडिगो राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। सूत्रों ने बताया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री से

नई दिल्ली, (भाषा)। मुंबई जाने वाले इंडिगो के एक विमान शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा। एयरलाइन ने कहा कि विमान में अचानक दुर्गंध आई और एहतियात के तौर

पर उसे वापस लाना पडा। इंडिगो ने एक बयान में बताया कि विमान, उडान संख्या 6ई 449, उड़ान भरने के कुछ समय बाद इंदिरा गांधी अंर्ताष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर लौट आया। इसमें कहा गया कि विमान अचानक दुर्गंध महसूस की गई और पायलट मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हए एहतियात के तौर पर विमान को वापस दिल्ली लेकर आया। विशिष्ट विवरण का तुरंत पता नहीं लगाया जा सका।

एयरलाइन ने कहा. यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई थी। हमें यात्रियों बीते वर्ष कश्मीर में आतंकियों ने को हुई असुविधा के लिए गहरा रखते हुए बाहरी श्रमिकों पर तीन

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL -II, DELHI. 4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET NEW DELHI-110001.

Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act 1993 read with rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule) 1993) in the

TA NO 1307/2023 SYNDICATE BANK VERSUS.Applicant SH. MANOJ KUMAR

DEFENDANT SH. MANOJ KUMAR S/O SH KAMESHWAR PRASAD PROP. M/S KAPSAN ENTERPIRSES SHOP NO 727 GAUSHALA ROAD **NAJAFGARH NEW DELHI 43** 

Also At Res. 84/85-A Bhupinder Nagar Dharampura Kakrola Road Najafgarh New Delhi-43

New Detin 4.7

Mhereas the above named applicant (s) has ave instituted a case for recovery of Rs 16.3.73.60. (RUPEE TWENTY ONE LAKE) SIXTY THREE THOUSAND SEVEN AUNDRED THIRTY SEVEN AND SIXTY PAISE DINLY) against you and where as it has beer shown to the satisfaction of the Tribunal that it is to possible to serve you in the ordinary way herefore, this notice is given by advertisement firecting you to make appearance in the you to make appearance in the on 12.08.2024 At 10.30 A.M. Talay before the mentioned, the case will be indicated by before the mentioned, the case will be indicated by before the mentioned, the case will be taken up through video Conferencing and or that purpose. (i) All the AdvocateSt.Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software: (ii) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to taken by Horble Presiding Officer/ Registrishall be displayed in the daily cause list itself DRT Official Portal i.e. drt.govin (iii) In a exigency qua that the Advocate/Litigants contact the concerned official at Ph. I contact the concerned official at Ph. I



BY ORDER OF THE TRIBUNAL, SECTION OFFICER DRT-II, DELHI.

# अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दीपक पुत्र श्री लाल बहादुर, निवासी- RZ-37A/24, पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली ने मुकदमा संख्या 66/2019 धारा 33 Delhi Excise Act अन्तर्गत थाना सागरपुर, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है के उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **दीपक** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त दीपक फरार हो गया है (या उक्त वारटं के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि मुकदमा संख्या 66/2019 धारा 33 Delhi Excise Act अन्तर्गत थाना सागरपुर, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त दीपक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 11.03.2024 को या इससे पहले हाजिर हों।

सुश्री ईशा सिंह महानगर दंडाधिकारी-03. कमरा नं0 18, मेन बिल्डंगी पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

DP/1594/SW/2024 (Court Matter)

#### की अपील पहचान

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति का शव जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, जिसकी उम्रः लगभग 40-45 साल, कदः 5'5", रंगः गेहुंआ, पहचान चिह्नः "दाहिनी छाती पर माँ रज्जो देवी का टैटू गुदा हुआ, पहनावाः नीले रंग की

टी-शर्ट, ग्रे रंग की जैकेट और बादामी रंग का पाजामा पहने हुए है। जो दिनांक 07.02.2024 को पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने, फव्वारा चौक, चांदनी चौक, दिल्ली से मृत अवस्था में पाया गया। इस संदर्भ में

डीडी सं. 12ए, दिनांक 07.02.2024 को पुलिस थाना कोतवाली, दिल्ली में दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस मृत व्यक्ति का कोई

भी सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

DP/1622/N/2024

पलिस थाना कोतवाली, दिल्ली फोनः 08750870121, 8750870181

#### 76= उत्तर रेलवे निविदा सूचना

ई-निविदा (ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के माध्यम से निविदा आमंत्रण भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य कार्यशाला प्रबंधक कार्यालय, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत, उत्तर रेलवे, निम्नलिखित कार्य के लिए ई—निविदा करते आंमंत्रित है।

निविदा संख्या Tender No219933RTI "आरसीएनके, एसएनपी में कार्य के दायरे के अनुसार सभी प्रकार के एलएचबी कोचों के लिए फ्लीट ग्राफिक फिल्म के साथ बाहरी पेंट की नाम और कार्य स्थान आपूर्ति और अनुप्रयोग"

अनुमानित लागत रुपये Rs. 72,14,343 / - जीएसटी 18% @ सहित बयाना राशि ₹. 1,44,300.00 / -निविदा फार्म का मूल्य अवधि कार्य आरंभ होने से बारह महीने दिनांकः 01.03.2024 खुलने निविदा प्रपत्र जमा करने की तथा का समय 15:00 बजे। खुलने की तिथि व समय निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने उपरोक्त निविदा <u>IREPS</u> साइट पर उपलब्ध है जो कि है <u>www.ireps.gov.in</u> के लिए इंटरनेट साइट

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

पत्र स. Tender No219933RTI Dated : 08.02.2024

Place: Faridabad 431/24

## सुप्रीम कोर्ट का वकीलों की अनिवार्य ट्रेनिंग पर जोर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी अधिवक्ताओं के अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरने और जब तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विधि विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र न हो उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमुर्ति पंकज मिथल की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक माणिक भटटाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सौविक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। भट्टाचार्य की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि समन आदेश के न होने के बावजूद निचली अदालत में एक वकील द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी। पीठ ने मौखिक रूप से

कहा, आपके पास वकीलों के लिए कोई विधि अकादमी क्यों नहीं है? हमारे पास न्यायाधीशों के लिए है। विधिज्ञ परिषद द्वारा दोषी वकीलों के खिलाफ कोई कार्वाई नहीं की जा रही है। उन्हें ठीक से शिक्षित किया जाना चाहिए। कुछ कीजिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए। पीठ ने कहा, यदि न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं? जब तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विधि विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र न हो, उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विदेशों में तो यह है ही। ऐसा नहीं है कि इसे कोई नहीं जानता, समस्या यह है कि कोई इस पर अमल नहीं करना चाहता। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मामले में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राज को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या अदालत ने कोई समन आदेश पारित किया है।

### उत्तर मध्य रेलव

(ई-नीलामी सूचना)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि० मण्डल वाणिज्य प्रबंधक-आगरा द्वारा निम्न दी गयी भेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की गयी है, विवरण निम्न प्रकार है:-

श्रेणीः नार्मल पे एण्ड यूज निलामी केटलॉग संख्याः PNU-AGRA-MTJ-02 **सेट्स डिटेल्स**ः मथुरा जं0 रेलवे स्टेशन पर नार्मल पे एण्ड यूज टॉयलेट का संचालन एवं रख-रखाव **-नीलामी प्रारम्भ होने की दिनांक एवं समयः** दिनांकः 22.02.2024 को समयः 11:00 -नीलामी समाप्त होने की दिनांक एंव समय: दिनांक: 22 02 2024 को समय: 11:30 **नोटः-** उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाईन वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के E-Auction Module के माध्यम से की जायेगी। लॉट अनुसार विवरण उर्पयुक्त केटलॉग

244/24 (P) **№ @ CPRONCE** 

### रेलव उत्तर मध्य

मत्र सं.: JHS/ELG/W/T-41/2023-24 निविदा सूचना भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरि. मंडल विद्युत अभियन्ता (सामान्य), उत्तर मध्य रेल, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन **(ई-टेन्डरिंग)** के माध्यम से खुली निविदायें निविदा मूल्य (₹): 4229802.99

G2 🚳

आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरणः झाँसी मंडल के विद्युत पंपों एवं स्टार्टरों बयाना राशि (₹): 84600/ की मरम्मत का दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध। निविदा प्रपत्र की कीमत (₹): शुन्य

**कार्य समापन अवधिः** दो वर्ष (24 महीने), **निविदा बंद होने की तिथि** : 28.02.2024 (15.00 बजे तक) **निविदा खोले जाने की तिथि :** 28.02.2024 (15:30 बजे तक), यदि निविदा खोलने की तिथि में अवकाश या वेबसाइट में तकनीकी समस्या है तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर उसी तरीके से खोली जाएंगी। निविदाकार निविदा दिनांक 28.02.2024 को 15.00 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेगें।पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल की बेबसाईट <u>http://www.ireps.gov.in</u> पर देखें। 240/24 (ADM)

f North central railways 🔀 @CPRONCR 🔘 @northo

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ.ए नं. 772/2023

बैंक ऑफ इंडिया विरुद

एस बी एस गारमेंटस्

(1) एसबीएस गारमेंट्स सिंह, पुत्री / पत्नी / पुत्र तन्वी, प्लॉट नं. 31, द्वितीय तल, पटपड़गंग ौद्योगिक क्षेत्र, पूर्व, दिल्ली—110092, <u>और: 2</u>41, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग एक्सटेंशन, पूर्वी देल्ली—110092, <u>और: ए</u>च—38, प्रथम तल, सेक्टर—63, नोएडा, यूपी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर नबिक उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **23,17,233/- (रु. तेईस लाख सत्रह हजार दो** सौ

तैतीस मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप प्ते यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचन वेज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको दिनांक 28-03-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय पी ओ व ममक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें) फोन : 011-23748473. यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद व

निवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

न रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो और उस उद्देश्य हेत् किया जाएगा:- सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोंड करेंगे; योग्य मामले की सुनवाई की अगली तारीख के "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" रजिस्ट्रार/ रिकवरी ऑफिसर-। द्वारा प्राप्त किये जाऐंगे, रिकवरी ऑफिसर-।।, गार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत DRT आधिकारिक पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। किसी भी आवश्यकता हेतु, एडवोकेट्स / लिटिगेंट्स, संबंधित ाधिकारी से फोन नं. 011—23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 30 जनवरी, 2024 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानसा सहायक रजिस्टार

प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है श्री अमित के. दार, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी— I, फोन: 011-23748473, ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

### STL GLOBAL LIMITED CIN: L51909DL1997PLC088667

Read, Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@st

#### **EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE** QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2023 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended (31.12.2023) Unaudited	Months Ended (31.12.2023) Unaudited	Quarter ended in the previous year (31.12.2022 Unaudited		
Total Income from operations (net)	2,563.73	6,338.54	2,562.56		
Total Expenses	2,576.94	6,519.18	2,641.65		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	(13.16)	(175.66)	(79.09)		
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(13.16)	(175.66)	(79.09)		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(14.44)	(182.39)	(62.20)		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(14.44)	(182.39)	(62.20)		
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each)	2,722.18	2,722.18	2,722.18		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year	_	_	_		
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)					
Basic:	(0.05)	(0.68)	(0.23)		
Diluted:	(0.05)	(0.68)	(0.23)		

1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 are available on the company's website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.

The Company business falls within a single business segment in terms of the Indian Accounting Standard- Operating segment, hence no additional disclosures have

### पश्चिम बंगाल : फरार टीएमसी नेता की गिरफ्तारी को लेकर संदेशखाली में हिंसक प्रदर्शन

बारासात (पश्चिम बंगाल) (भाषा)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के फरार नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में शुक्रवार को लोग उग्र हो गये। गुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने हाथों में डंडे और झाड़ लेकर संदेशखाली के अलग-अलग हिस्सों में सुबह से ही जुलूस निकालें। बाद में भीड़ ने शाहजहां के सहयोगी शिवप्रसाद हाजरा के घर में तोड-फोड़ की और कुछ लकड़ी के सामान में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि जेलियाखाली में हाजरा से जुड़े एक मुर्गीपालन फार्म को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक होसेन मेहदी रहमान ने बताया कि बलों को इलाके में भेज दिया गया है और हालात पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांववालों ने शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच की जा रही है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिर्ल्ल चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार नई दिल्ली-110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साध पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिय नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत

ओ.ए. सं. 209/2023 दिनांक 08.02.202 केनरा बैंक

नैसर्स वीएन लिफ्टी एवं अन्य

मैसर्स वी एन लिफ्टी प्रोप, श्री नितिन कुमार पु नुभाष चंदर, निवासी फ्लैट नं. 765 जीएफ जीए और 7 पश्चिम विहार दिल्ली-87 <u>और:</u> 70 गां केरारी तालाब और शिव मंदिर के पास न जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रूप

55,99,068.64 (रूपये पच्चपन लाख निन्य जार अडसठ और पैसे चौसठ मात्र) की वसर्ल हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि ायाधिकरण को संतोषजनक रूप से या दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप सचना दिया जाना संभव नहीं है. इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम गपको दिनांक 25-07-2024 को पूर्वा. 10.30 होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इर याधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति :

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:-सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक . प्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रा द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और 'पासवर्ड'' DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" की दैनिक वाद की सूची दर्शित किया जाएगा।

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स, टिगेंट्स संबंधित अधिकारी से 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर व हत 08 फरवरी, 2024 को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार

IN THE COURT OF SH.
RAKESH PANDIT, DISTRICT
JUDGE (COMM COURT)-04,
COURT NO. 509, SOUTH-WEST
DISTRICT, DWARKA COURTS, NEW DELHI

PUBLICATION NOTICE :
DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of
Civil Procedure) SUIT NO.: CS (COMM)/319/2023 M/S ICICI BANK LTD ...PLAINTIFF

AS CARGO PVT LTD & ANR ...DEFENDANT

. AS CARGO PVT LTD THROUGH ITS DIRECTOR SH. AMIT KUMAR, BORROWER) A-250, ROAD NO. 6, GF MAHIPALPUR, DELHI- 110 037 2. SH. AMIT KUMAR CO-BORROWER), S/O SH ARUN KUMAR RZF-834, LAL BHADUR SHASTRI MARG, RAJ NAGAR PART-2 PALAM COLONY, SOUTH-WEST, DELHI, DELHI-110 077 CONTACT NO. 9958262134,

E-MAIL : amit@ascargoservicepvtltd.com

ALSO AT:FLAT NO. A-5 103, TOWER A,
FIRST FLOOR, M3M SECTOR
107, GURGAON
(HARYANA)-122 006 Whereas Plaintiff has instituted that

above Commercial Suit for Recovery againt the defendant. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on 11.03.2024 at 10:00 AM to Answer the same, failing which the Suit will be disposed of Ex-parte. Given under my hand and seal of the Court, this 23rd day of January, 2024 to be published in English Newspaper "The Statesman".

NOTE:- Defendant is informed to file Written Statement alongwith Statement of Truth and Affidavit of Admission and Denial of Documents within a period of 30 days from the date of receipt of Summons with advance copy to

> District Judge-04 (Commercial Court) South-West District Court No. 509, 5th Floor **District Courts Dwarks**

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन ग प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा केए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या

पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र . उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के . There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nin months ended 31st December, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of STL Global Limite समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र Sh. Sanjiv Kumar Agarwa उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी Whole Time Direct DIN: 00227251 प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।